

बुद्धि का अर्थ — बुद्धि एक अत्यन्त जटिल मानसिक प्रक्रिया है इसके जटिलता के कारण हिमनो वैज्ञानिक एकमत हो कर बुद्धि की कोई सर्व-सिद्ध परिभाषा आज तक नहीं दे पाये हैं। जैसे बुद्धि को एक अवस्थित परिभाषा देने का कार्य सर्वप्रथम यूनान के दार्शनिकों ने किया। उन्होंने जिस आधार पर बुद्धि को परिभाषित किया उसे आज हम शक्ति मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, और इनमें कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं होता है, और प्रत्येक शक्ति एक विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे स्मृति, कल्पना, चिन्तन, भाषा योग्यता आदि। आज इस विचार धारा को लगा जा चुका है। अब माना जाता है कि ये शक्तियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं।

बुद्धि की परिभाषा — बुद्धि की निम्न-लिखित परिभाषाएँ होती हैं।

1- **बुडवर्थ के अनुसार** —

बुद्धि के चार प्रमुख तत्व बताये हैं
अतीत के अनुभवों का प्रयोग

- ii) नवीन परिस्थितियों में समाधान /
- iii) परिस्थितियों को समझना /
- iv) क्रियाओं को व्यापक दृष्टि कोण से देना

2. स्नर्न के अनुसार -

बुद्धि शब्द प्रत्यक्ष की उस योग्यता का सूचक है। जिसके द्वारा वह नवीन परिस्थितियों में अपनी समस्या का समाधान करता है।

3. बकिंघम के अनुसार -

बुद्धि सीखने की योग्यता है।

4. स्विमर मेन के अनुसार -

बुद्धि तर्क युक्त चिन्तन है।

5. तर्मेन के अनुसार -

बुद्धि अमूर्त रूप में चिन्तन करने की शक्ति है।